



सा रे गा मा पा की विजेता बनी नागपुर की सुगंधा दाते

टीवी की दुनिया के लोकप्रिय शो ज़ी टीवी के 'सारेगामापा' लिटिल चैंप्स 2019 के खिताब का विजेता नागपुर की सुगंधा दाते ने अपने नाम कर लिया है। ईनाम में सुगंधा को ट्रॉफी और 5 लाख रूपए मिले। इस शो के में तृतीय स्थान पर प्रीतम अचार्य और दूसरे स्थान पर मोहम्मद फैज रहें। 14 साल की सुगंधा ने रविवार को टीवी शो सारेगामापा लिटिल चैंप्स के फिनाले में बाजी मारी। उन्होंने पांच प्रतिभागियों आयुष केसी, मोहम्मद फैज, अनुष्का पात्रा, प्रीतम आचार्य और आस्था दास को हराकर यह जीत हासिल की।

सुगंधा ने अपनी जीत का श्रेय अपने माता-पिता और गुरु आनंद शर्मा को दिया। सुगंधा के माता-पिता नागपुर से हैं। बेटी के करियर के लिए वे पांच सालों से मुंबई में रह रहे हैं। सुगंधा ने बताया कि जब मेरे नाम की घोषणा हुई तब मम्मी-पापा और भाई भावुक हो गए थे। पांच साल पहले जब मैं इंडियन आइडल जूनियर में आई थी, तब टॉप पांच तक ही पहुंच पाई थी। उसके बाद मम्मी-पापा ने तय किया था कि मेरे करियर के लिए वह मुंबई में ट्रांसफर लेंगे।

सुगंधा 6 साल की उम्र से गाना गा रही हैं। वह कहती हैं, मेरी मम्मी ने संगीत में एमए किया है। शुरुआत में वह मुझे गाना सिखाया करती थीं। मेरी गायकी की ट्रेनिंग नौ साल की उम्र से शुरू हुई थी।

सुगंधा शो में जीती हुई पांच लाख की राशि अपने माता-पिता को देना चाहती हैं। सुगंधा अपनी जीत का श्रेय शो के जजेस अमाल मलिक, ऋचा शर्मा और शान को भी देती हैं। सुगंधा दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट और प्रियंका चोपड़ा के लिए गाना गाना चाहती हैं।